

ICRA Limited

July 23, 2019

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai 400 001, India

Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the notice published in the following newspapers on July 23, 2019:

1. Financial Express

2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Building No. 8, 2nd Floor, Tower A DLF Cyber City, Phase II Gurugram - 122002, Haryana Tel.: +91.124.4545300

CIN: L74999DL1991PLC042749

Website : www.icra.in

Email: info@icraindia.com Helpdesk: +91.124.3341580

Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001. Tel.: +91.11.23357940-45

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Crisil revises SBHPL rating outlook to 'negative' from 'stable'

FE BUREAU Mumbai, July 22

CRISIL ON MONDAY revised its rating outlook on the longterm bank facility worth ₹434.49 crore of Sadbhav Bhavnagar Highway (SBHPL) to'negative'from'stable',while reaffirming the rating at 'CRISIL A'. The outlook has been revised due to delays in construction progress as a result of encumbrances on right-of-way (ROW).

The rating agency in its detailed rationale said, "The project was to achieve third project milestone corresponding to 75% financial progress on June 22,2019, after factoring in 174 days extension of time (EOT) from National Highways Authority of India (NHAI). However, the milestone hasn't been achieved within the extended period, and is now expected to be achieved within the 90-day cure period (by September 22, 2019) given that earth work on 35.78 kilometre (km) out of the total 48 km has been completed and the pending, high-value top layer work takes lesser time to complete. The original commercial operations date (COD) for the project was August 6, 2019, but EOT has been received till January 28, 2020."

The rating continues to reflect inherent benefits of the hybrid annuity model (HAM) such as provisions for change in scope or delinking of unavailable land, low funding risk, operational experience and financial strength of the sponsor, Sadbhav Infrastructure Projects (SIPL), and its need-based support during the construction and operational phases.

Around 68% of the project has been completed as of March

SWADESHI INDUSTRIES AND LEASING LIMITED Regd. Office: Munisuvrat Complex, Phase III, Building. A 1, 1st floor, Near Anjur

Phata, Bhiwandi Thane - 421302 Email:Compliance@swadeshiglobal.com Website: www.swadeshiglobal.com. NOTICE Pursuant to Regulation 29 read

with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Company will be held on Wednesday 14th August, 2019, inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for first quarter ended 30th June 2019. Further, Pursuant as per the "Code of Conduct" formed under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; Trading Window of the Company will be closed for trading in Securities of the Company, from July 1, 2019 till 48 hours after the date of declaration of results for Directors, KMP Officers and Designated Employees, and their immediate relatives.

This information is also available on Company's website at www.swadeshiglobal.com and also on Stock Exchanges Website at www.bseindia.com

For Swadeshi Industries and **Leasing Limited**

Gaurav Jain Managing Director (DIN: 06794973) Date: 22/07/2019

Place: Mumbai

ACI INFOCOM LIMITED 121. 1st Floor, V. Mall, Thakur Complex.

Kandivali East Mumbai 400 101 Email: compliance@acirealty.co.in Web: www. acirealty.co.in NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read

with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Company will be held on Tuesday 13th August, 2019, inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for first quarter ended 30th June 2019. Further, Pursuant as per the "Code of Conduct" formed under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; the Trading Window of the Company will be closed for trading in Securities of the Company, from July 1, 2019 till 48 hours after the date of declaration of results for Directors, KMP Officers and Designated Employees, and their immediate relatives.

This information is also available on Company's website at www.acirealty.co.in and also on Stock Exchanges Website at www.bseindia.com

For ACI Infocom Limited **Kushal Chand Jain** Director

(DIN: 03545081) Date: 22.07.2019 Place: Mumbai

2019 and hence there is moderate implementation risk. The company has missed the third project milestone even within

the extended time period, but this is expected to be achieved within the 90-day cure period. The implementation risk is

General Manager

DIT, BPR & BTD

Date 23.07.2019

GGM (Civil-1)

For ICRA Limited

(S. Shakeb Rahman)

DLF∰

BUILDING INDIA

For DLF LIMITED

(Subhash Setia)

Company Secretary

Company Secretary & Compliance Officer

यूको बैंक 倒 UCO BANK

(Govt. of India Undertaking)

Head Office -II, Department of Information Technology

3 & 4, DD Block, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-700064

NOTICE INVITING TENDER

2. Request for Proposal (RFP) For Procurement of 200 Mbps P2P Link from Kolkata

3. Request For Proposal (RFP) For Supply of Apple iPads, Microsoft Surface Pro &

NOTICE INVITING TENDER

Open Tender from experienced contractors are invited for "Two stage bidding system via Offling

node for Development of Mega Eco Ethnic Destination at Kamleshwarpur in Chhattisgarh State

Estimated Cost-2137.94 Lacs." Last Date of submission is 13.08.2019. Complete details

ender are available on TCIL website at www.tcil-india.com All Addendmus/Corrigendum, if any

shall only published on this website. Bidders are requested to update themselves about any

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of ICRA Limited (the "Company") is scheduled to be held on Thursday,

August 1, 2019, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results (standalone

The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limited

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company

will be held on Monday, 29th July, 2019 to consider and approve, inter alia,

Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the guarter

The information contained in this Notice is available on the Company's website i.e.,

http://www.dlf.in/board-meeting-notice and on the Stock Exchange websites

@ FEDERAL FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED

Website: www.federalmogulgoetzeindia.net, E mail: investor.grievance@tenneco.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given

that the meeting of the Board of Directors of the Company will be

held on Tuesday, 13" August, 2019, to inter alia, approve the

Unaudited Financial Results of the Company, for the quarter ended

The intimation is also available on the website of the Company i.e.

www.federalmogulgoetzeindia.net and website of the Stock

Exchanges where the shares of the Company are listed at

spice

Spice Mobility Limited

Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt. Centre,

New Delhi -110025; Tel.: 011- 41251965; Email: complianceofficer@smobility.in

Website: www.spicemobility.in; CIN: L72900DL1986PLC330369

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on

Tuesday, the 30th July, 2019 to inter-alia consider and approve the Un -audited

A copy of the aforesaid Notice and the Financial Results after approval by

the Board in the aforesaid Meeting will be available on the website of the

Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

www.bseindia.com and www.nseindia.com.

CIN: L74899DL1954PLC002452

Regd. Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F 79 & 80,

Okhla Phase-I, New Delhi-110020 Tel./Fax: + 91 11 4905797

For Federal-Mogul Goetze (India) Limited

(Dr. Khalid Iqbal Khan)

Whole-time Director-Legal & Company Secretary

(www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

& consolidated) of the Company for the first quarter ended June 30, 2019

Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg, Phase-I, DLF City, Gurugram - 122 002 (Haryana) Tel.: +91-124-4334200

i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Website : www.dlf.in; Email : investor-relations@dlf.in

CIN: L70101HR1963PLC002484

ended 30" June, 2019.

MOGUL

on 30" June, 2019.

Corporate Office:

Place: Delhi

Paras Twin Towers, 10th floor,

Road, Gurgaon- 122002

Dated: 22" July, 2019

Tower-B, Sector-54, Golf Course

GOETZE INDIA

22.07.2019

Telecommunications Consultants India Ltd.

(A Govt. of India Enterprise) TCIL Bhawan, Greater Kailash-I, New Delhi - 110048

ICRA Limited

Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor

26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001

Telephone No.: +91.11.23357940-45

Website: www.icra.in Email ID: investors@icraindia.com

1. Request for Proposal (RFP) for Procurement of solution for E-Learning Program

UCO Bank invites Request for Proposal (RFP) for the following items:

For any details, please refer to https://www.ucobank.com.

Data Centre to Bangalore Data Centre

Samsung Galaxy Tab

change till the last date of submission.

Date: 23.07.2019

Ten

mitigated by fixed-price, fixedtime contract with, and strong project execution capabilities of, SEL.

Dear Member(s).

However, the rating agency also said, "Construction in SBHPL is currently delayed and the project has missed the third

LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi - 110046, Phone: 01149857832 Email: shares@lumaxmail.com, Website: www.lumaxautotech.com CIN: L31909DL1981PLC349793

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

NOTICE OF POSTAL BALLOT [Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force, Secretarial Standards-II on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable laws and regulations, if any, the Company is seeking consent of the Members of the Company by means of Postal Ballot/Electronic Voting ("e-voting") to pass the proposed Resolutions which shall be as follows:

- Special Resolution for the re-appointment of Mr. Roop Salotra as Independent Director of the Company for a period of five years.
- Special Resolution for the re-appointment of Mr. Milap Jain as Independent Director of the Company for a period of five years.
- Special Resolution for the continuation of directorship of Mr. Avinash Parkash Gandhi (Non-Executive Independent Director) for the
- Special resolution for the approval/ratification of the remuneration being paid to Mr. Deepak Jain (Non-Executive Director). The Members are hereby informed that:
 - The Company has completed dispatch of Notice of Postal Ballot dated July 20, 2019 containing Draft Resolutions, Postal Ballot Form and a self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope and an e-mail has been sent on July 20, 2019 whose email-IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) to all the Members whose names appeared in the Register of Members as on July 12, 2019 which is the cut-off date, for seeking their consent on the agenda items listed in the Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement thereto as required under the provisions of Section 102 read with Section 110 of the Act.
- The business to be transacted by Postal Ballot may also be transacted by e-voting as provided in the Act read with the Rules
- In Compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Rules and Listing Regulations, the Company has provided facility for e-voting through Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") e-voting platform. The e-voting period commences on Monday, i.e. July 22, 2019 at 09:00 A.M. (IST) and ends on Tuesday, August 20, 2019 at 05:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. July 12, 2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Karvy thereafter.
- Voting Rights of the Members has been reckoned as on July 12. 2019, which is the cut-off Date.
- The Board of Directors of the Company, has appointed Mr. Maneesh Gupta, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and
- The duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 05:00 P.M. (IST) on Tuesday, August 20, 2019 to be eligible for being considered, failing which it will be considered that no reply has been received from the Member(s). vii. The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by
- physical Postal Ballot or e-voting. However, in case Members cast their votes through physical Postal Ballot and e-voting both, then voting done through e-voting platform shall prevail and voting done by physical Postal Ballot will be treated as invalid. riii. The Notice of Postal Ballot and Postal Ballot Form have also been
- placed on the website of the Company viz. www.lumaxautotech.com as well as on website of Karvy viz. www.evoting.karvy.com. Members who have not received the Notice of Postal Ballot or Postal Ballot Form can download the same from either website as provided above, or seek a duplicate Postal Ballot Form from the Company or from Karvy Fintech Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent (RTA), at following address:

Mr. Vinod Yadav, Client Co-ordinator Bigshare Services Private Limited Bharat Tin Works Building, First Floor Opp. Vasant Oasis,

Makwana Road, Marol, Andheri-East, Mumbai-400059, Maharastra, India

Phone: +022-62638200, Fax: 022-62638299, email: vinod.y@bigshareonline.com In case of any queries, you may refer to the Frequently

Asked Questions (FAQs) for Members at https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx or call Karvy Fintech Private Limited on 1800 345 4001 (toll free) or may send an e-mail request to evoting@karvy.com.

For any grievances in respect of e-voting, Members may contact as

Mr. Rajeev Kumar

Karvy Fintech Private Limited

Phone: +040 67161524 | email: rajeev.kr@karvy.com

For any grievances in respect of Postal Ballot include e-voting, Members may contact as follows: Mr. Anil Tyagi Company Secretary

Lumax Auto Technologies Limited Phone: +011-49857832 | email: shares@lumaxmail.com

By Order of the Board For Lumax Auto Technologies Limited Place: New Delhi Anil Tyagi Date: 20 July, 2019 Company Secretary

Union Mutual Fund

Company at www.spicemobility.in.

Date: 22rd July, 2019

Place: New Delhi

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201 Registered Office: Unit 503, 5th Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

Toll Free No. 18002002268;
 Non Toll Free, 022-67483333;
 Fax No: 022-67483401;

By Order of the Board

& Company Secretary

M R Bothra

For Spice Mobility Limited

Vice President - Corporate Affairs

Website: www.unionmf.com;
 Email: investorcare@unionmf.com



NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF UNION TAX SAVER SCHEME (AN OPEN ENDED EQUITY LINKED SAVING SCHEME WITH A STATUTORY LOCK IN OF 3 YEARS AND TAX BENEFIT)

Change in Scheme Name:

NOTICE is hereby given to the Unitholders that Union Trustee Company Private Limited, Trustee to Union Mutual Fund, has approved the change in name of Union Tax Saver Scheme ('the Scheme'), as follows in order to align the scheme name with the key aspect of the Scheme viz. long term investing. The type of the Scheme will continue to be 'an open ended equity linked saving scheme with a statutory lock in of 3 years and tax benefit':

Existing Scheme Name Revised Scheme Name Union Tax Saver Scheme Union Long Term Equity Fund

The above change will be effective from July 29, 2019 (Monday).

Accordingly, all references to the existing name of the Scheme wherever appearing in the SID and KIM of the Scheme shall be replaced with the revised name mentioned above.

All other features including nature, investment objective, asset allocation pattern, fundamental attributes, terms and conditions of the Scheme shall remain unchanged.

It may be noted that necessary/incidental changes, if any, shall be made in the SID and KIM of the Scheme in the above regard.

The SID and KIM of the Scheme will stand modified to the extent mentioned above.

This Addendum forms an integral part of the SID and KIM of the Scheme.

All other terms and conditions of the SID and KIM of the Scheme will remain unchanged.

For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: July 22, 2019 Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY. Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank

of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/Customer Service Centres/distributors as well as from our website www.unionmf.com.

project milestone date. The rating may be downgraded if the project is unable to achieve the provisional COD in line with the

original COD of August 2019. The outlook may be revised to 'stable' if the project receives timely provisional COD and

approval for delinking, resulting in full annuities being received as per the original schedule."



Can Fin Homes Ltd. CIN:L85110KA1987PLC008699 Registered Office

No.29/1, I Floor, Sir M N Krishna Rao Road Basavanagudi, Bengaluru - 560004 Ph: 080- 26564259 Fax: 080-26565746 E-mail: compsec@canfinhomes.com Web: www.canfinhomes.com

Extract of the Standalone Un-Audited Financial Results for the First Quarter & Three months ended 30/06/2019

(₹ in Lakhs) 3 months Corresponding Year ended ended 3 months ended SI. (31/03/2019)Particulars 4 8 1 (30/06/2019) (30/06/2018) No. Un-audited Audited Un-audited Total Income from operations 48,414 1,73,135 40,264 Net Profit / (Loss) for the period 12,290 46,950 11,263 (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax 12,290 46,950 11,263 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax 8,098 29,674 7,322 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 8,047 29,676 7,333 [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up equity share capital 2,663 2,663 2,663 (Face value of ₹2/- per share) Reserves (excluding Revaluation Reserves) 1,75,555 1,75,555 1,46,035 Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -22.28 6.08 (a) Basic 5.50 6.08 22.28 5.50 (b) Diluted

NOTES:

- (a) The unaudited standalone financial results for the first quarter and three months ended June 30, 2019 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company in compliance of regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 22, 2019.
- (b) The Company has adopted Ind AS 116 "Leases", with effect from April 1, 2019 and applied to all lease contracts existing on April 1, 2019 using the modified retrospective method and has taken the cumulative adjustment to retained earnings as per the guidelines provided in Paragraph C7 and Paragraph C8 c(i) of Ind AS 116, on the date of initial application.
- (c) The above is an extract of the detailed format of standalone unaudited financial results for the first quarter and three months ended June 30, 2019 filed with National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Limited under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2019 are available on the websites of National Stock Exchange of India Ltd. (URL: https://www.nseindia.com) BSE Limited (URL: https://www.bseindia.com) and of the Company (URL: https:// www.canfinhomes.com)

For and on behalf of the Board of Directors of Can Fin Homes Ltd.

SHREEKANT M BHANDIWAD Place: Bengaluru Date: July 22, 2019 Deputy Managing Director

BLUE STAR

BLUE STAR LIMITED (CIN: L28920MH1949PLC006870)

Registered Office: Kasturi Buildings, Mohan T Advani Chowk, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 400 020. Email: investorrelations@bluestarindia.com; Website: www.bluestarindia.com Telephone No.: +91 22 6665 4000, +91 22 6654 4000

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 71st Annual General Meeting (AGM) of the members of Blue Star Limited ('the Company') will be held on Tuesday, August 13, 2019 at Jai Hind College Hall, Sitaram Deora Marg, ("A" Road), Churchgate, Mumbai 400 020 at 3:30 p.m. to transact the business, as set out in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19, inter-alia, containing

Board's Report, Auditors' Report and Audited Financial Statements have been sent in electronic mode to all those members who have registered their email address with the Company/ Depository Participant and the same have been dispatched to all other members at their registered address in permitted mode. The Company has completed dispatch of Notice and Annual Report to all Members on July 19, 2019 and the same are also made available on the website of the Company at www.bluestarindia.com, National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members holding shares either in physical form or dematerialised form as on the cut - off date of August 6, 2019 shall be entitled to remote e-voting. Electronic voting shall also be made available at the AGM venue and Members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled

 Cut-off Date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and voting at the AGM 	August 6, 2019
Day, date and time of commencement of remote e-voting	August 10, 2019 (9:00 am IST)
Day, date and time of end of remote e-voting	August 12, 2019 (5:00 pm IST)

The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. August 6, 2019, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for the Members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990. The Members can also contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, 'A' wing, 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email address: evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 2499 4200.

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 3, 2019 to Tuesday, August 13, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining entitlement of Members to the dividend for the financial year ended March 31, 2019. The dividend, if approved at the Meeting, will be paid to those members whose names appear as:

- Beneficial Owners as at the end of business hours on August 2, 2019 as per the lists to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of the shares held in electronic form;
- Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form which are lodged with the Company or its Registrar and Transfer Agent (RTA) on or before August 2, 2019.

For Blue Star Limited

Vijay Devadiga Company Secretary

Place : Mumbai Date : July 20, 2019

Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor 26. Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.: +91.11.23357940-45 Website: www.icra.in Email ID: investors@icraindia.com

Notice is hereby given, pursuant to regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of

the Board of Directors of ICRA Limited (the "Company") is scheduled to be held on Thursday.

August 1, 2019, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results (standalone & consolidated) of the Company for the first guarter ended June 30, 2019. The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). For ICRA Limited (S. Shakeb Rahman)

Date : July 22, 2019 Company Secretary & Compliance Officer

डीएलएफ लिमिटेड पंजीकत कार्यालयः शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, फेस—Ì, डीएलएफ सिटी, गुरूग्राम — 122 002 (हरियाणा) फोनः +91-124-4334200 CIN : L70101HR1963PLC002484 वेबसाइटः www.dlf.in; ई—मेल : investor-relations@dlf.in



एतदहारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जुन, 2019 को समाप्त तिमाही के अनां के क्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार विमर्श

इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट, http://www.dlf.in/boardmeeting-notice तथा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों, www.nseindia.com एवं www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध हैं।

कते डी एल एफ लिमिटेड (सुभाष सेतिया) कम्पनी सचिव

मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, (KVB) Karur Vysya Bank मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड करलबाग,नई दिल्ली-110005 Smart way to bank फोनः 011-28758374/2875375/76/77 ई-मेलः Delhido@kvbmail.com viswanadhama@kvbmail.com

बिक्री सुचना तिथि 8.7.2019 का संवर्धन

बी-43, एमआईजी, भृतल, बैक साइड, डीएलएफ, दिलशाद एक्स्टेंशन II, साहिबाबाद, गाजियाबाद में सम्पत्ति की बिक्री के संदर्भ में बिक्री सूचना तिथि 8.7.2019 के लिये सर्व-साधारण के साथ ही साथ ऋणधारकों अर्थात् 1) श्री पीयुश गोयल, पुत्र श्री सतीश कुमार गोयल, तथा 2) श्री सतीश कुमार गोयल, पुत्र स्व. श्री राम स्वरूप, दोनों निवासी बी-43, एमआईजी, भूतल, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन-II, भोपुरा, गाजियाबाद-201005 ध्यान दें। नीलामी की तिथि अनजाने में 17.12.2018 वर्णित हो गई है। उसे कृपया 23.08.2019 पहें।

तिथिः 22.07.19 स्थानः दिल्ली एनसीआर मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड



गाँधी नगर शाखा X/918, चाँद मोहल्ला, दिल्ली-110031

कब्जा सूचना अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002

के नियम 8 के साथ पठित जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित

अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, गाँधी नगर, दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री युसुफ खान / मैसर्स युसुफ इंटरप्राईजेज़ को मांग सूचना दिनांकित 06.11.2018 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 65,01,723.66 (रुपये पैसठ लाख एक हजार सात सौ तेईस और पैसे छियासठ मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गारंटर राशि का प्रतिभगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 17.07.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, गाँधी नगर शाखा, दिल्ली) के प्रभार वास्ते रु. 57,34,610.66 दिनांक 16.07.2019 तक और दिनांक एनपीए की तिथि अर्थात 31.10.2018 से ब्याज, आकरिमक एवं अन्य प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

नं. सी-258, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन वैस्ट, नई दिल्ली-110013 में स्थित, यह सम्पत्ति युसुफ खान के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – प्रवेश / गली, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में -अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में — अन्य की सम्पत्ति

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया दिनांक : 17.07.2019, स्थान : नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सार्वजनिक सूचना

रिट याचिका (सिविल) 686 / 2016 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2019 के अनुसरण में ब्लॉक 15, त्रिलोकपुरी के सभी डीएमआरसी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीएस) को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि त्रिलोकपुरी में नवनिर्मित इकाइयों का लॉटरी से आबंटन न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में मयुर विहार फेस-1 मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी कार्यालय में बुधवार 24 जुलाई, 2019 को अपराहन 3.00 बजे निर्धारित किया जाता है।

सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिये स्थान पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय और स्थान पर उक्त आबंटन में उपस्थित नहीं होता है उसकी लॉटरी मनोनीत समिति द्वारा निकाल दी जायेगी। इसके बाद डीएमआरसी द्वारा आबंटित इकाइयों में किसी तरह के परिवर्तन के लिये किसी भी अनुरोध



DELHI METRO मेरा मेदो



Form No. 5 Debts Recovery Tribunal, Lucknow (Jurisdiction Part of U.P. and Uttranchal) 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007 Summons for filing Reply & Appearance by Publication

O.A. No. 405/2018 (Summons to Defendant under Section 19(4), of the Recovery of Debts due to Banks and

Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal

(Procedure Rule, 1993) Canara Bank

M/s ABSA Aqua Pvt. Ltd. & Others

 M/s ABSA Aqua Pvt. Ltd. Registered office at: K -266, UPSIDC, Surajpur Site-V Industrial Area, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar, (U.P.), Registered office at: 205, Atiesh House, 16/3, W.E.A. Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi 2. Shri Ravi Raj Lamba Son of Shri Tirath Ram Lamba, Resident of EH-1/406, Eldeco

Utopia Sector-93A, Noida, G.B. Nagar, (U.P.) Shri Abhishek Lamba Son of Shri Ravi Lamba, Resident of EH-1/406, Eldeco Utopia Sector-93A, Noida, G.B. Nagar, (U.P.)

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 29-07-2019 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence

Debts Recovery Tribunal, Lucknow



मोरादाबाद मुख्य शाखा चौमखापल. मोरादाबाद

फोन नं.: 0591-2316063, 2316062 इंमेलः moradabad.ghaziabad@bankofindia.co.in

[देखें नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 26.7.2017 जारी कर ऋणधारक मै. माइसेल्फ तथा उसके प्रॉप्राईटर श्री विकास भोला, पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार तथा गारन्टरों श्रीमती उषा रानी भोला, पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5,32,410/- (रुपये पाँच लाख बत्तीस हजार चार सौ दस मात्र) के साथ 26.7.2017 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा सम्पूर्ण भुगतान तक अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक मै. | माईसेल्फ तथा उसके प्रॉप्राईटर श्री विकास भोला, पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार तथा गारन्टरों श्रीमती उषा रानी भोला, पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

विशेष रूप से ऋणधारकों, गारन्टरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 5,32,410/- (रुपये पाँच लाख बत्तीस हजार चार सौ दस मात्र) के साथ 26.7.2017 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज [सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सुचना जारी करने के बाद वसुली, यदि कोई हो, को घटाक] के लिये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज

अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का विवरण

श्रीमती उषा रानी, पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार के नाम में क्वा. नं. 59 बी, आदर्श नगर, मोरादाबाद, क्षेत्रफल माप 72.67 एसक्यूएम में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।

पश्चिमः श्रीमती कमलेश कुमारी का मकान

पूर्वः सरदार मोहर सिंह का मकान, उत्तरः रोड

दक्षिण : श्री बृज पाल, पुत्र श्री ओम प्रकाश का मकान

तिथि: 17.7.2019 बैंक ऑफ इंडिया के लिये स्थानः मोरादाबाद मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी spice

Website: www.spicemobility.in; CIN: L72900DL1986PLC330369

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on

Tuesday, the 30th July, 2019 to inter-alia consider and approve the Un -audited

A copy of the aforesaid Notice and the Financial Results after approval by

the Board in the aforesaid Meeting will be available on the website of the

OSBI

एंटरप्राइज व टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर (E &TA) विभाग,

स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

प्रस्ताव के लिए अनुरोध

एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) टूल की प्राप्ति,

संस्थापन, सेटअप और रखरखाव के लिए

भारतीय स्टेट बॅंक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) टल की प्राप्ति, संस्थापन, सेटअप

और रखरखाव के लिए भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठित कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित

करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi

भारतीय कटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

आईसीढी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर के माध्यम से)

एमएसएलपी / खादवास, राजस्थान में रेलसाइड पर कंटेनरों की लोडिंग एवं जनलोडिंग के समय वैगनों की लॉकिंग एवं

CON/NR/TC/Lockmen/CMLK/2019

रु. 1,24,700/- ई-भूगतान के मध्यम से

07.08.2019 को 15:00 बजे तक

योग्यल आहेताओं एवं अन्य जनकारी हेर्] कृप्या www.concorindia.com अध्या eprocure.gov.in अध्या www.tenderwizard.com/CCIL प लॉग ऑन करें। निविदादाताओं से निवेदन है कि वो नियमित रूप से वेबसाइटों को देखें। कोनकोर किसी भी वा सभी निविदाओं को बिना कारण

बताए अस्वीकार कर सकता है। सम्पूर्ण विवरण हेतु लॉन इन करें www.tenderwizard.com/CCIL कार्यकारी निदेशक/ उत्तरी दोव

निविदा आमंत्रण सूचना

अनुमानित

लागत / धरोहर

जमा राशि (रु)

18.57 Crs/

5,00,000

प्रकाशित

दिनांक

27.06.2019

03.07.2019

शुद्धिपत्र/निविदा तिथि विस्तार

website www.tatapower-ddl.com→Vendors Zone→Tender / Corrigendum Documents

कब्जे की सचना

बैसे की, श्री राम हाऊसिंग फावनेस लिमीटेड (मूल ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेक्व्मिटावड्रोशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ

कावनानशिवल ॲसेट्स ॲण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सेक्व्र्रिटी इन्ट्रेस्ट ॲक्ट, २००२ के अनुसार और धारा १३(१२) सपठीत -सेक्व्र्रिटी

इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) रुल्स, के नियम ३ के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत अर्जदारों को उनके नामों के समुख निर्देशित राशि का प्रदान

नंबंधित सूचना में निर्देशित लागू दरों पर ब्याज के साथ संबंधित सूचना की प्राप्ति की तिथि से ६० दिनों के भीतर प्रदान और ∕या वसली की

वन्धक संपत्ति का विवरण : खसरा नं, १९ में स्थित सारी वस्त और पार्सल संपत्ति, मीरा विहार, मीजा कहराइ, ताज गंज, आगरा, उत्तर प्रदेश

उक्त वर्णित खाता, मूल ऋणदाता के द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि के विना शर्त एवं अखंडनीय रूप से अभीहस्तांतरित क

दिया है। तथापि, कर्जदार द्वारा संबंधित राशि का प्रदान करने में असफल होने के कारण यह सुचना विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को तथा आम जनता को दी जाती है की एसेट रिकंस्ट्रकान कंपनी (इंडिया) लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के धारा १३(४

सपठीत इस नियम के नियम ८ के तहत उन्हे प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करत हुए उपरी निर्देशित जायदाद / प्रतिभृत संपत्ति का प्राधिकृत

अधिकार ने उपरी निर्देशित तिथि को **सांकेतिक कब्जा** प्राप्त कर लिया है, विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को और आम बनता को

आगाह किया जाता है की वे इस निर्देशित जायदाद / प्रतिभृत संपत्ति के संदर्भ में व्यवहार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि (आर्सिल

के प्रभारों के अधीन होगा, कानून के धारा १३ के उपधारा (८) के प्रावधानों के तहत कर्जदारों को सुचित किया जाता है कि वे उपलब्ध समर

में प्रतिभृत संपत्ति विमृक्त करेंप्रभारों के अधीन होगा, कानून के धारा १३ के उपधारा (८) के प्रावधानों के तहत कर्वदारों को सूचित किया

TCII पंजीकृत कार्चालय : द रूबी, १० वी मंजिल, २९ सेनापति बापट मार्ग, दादर (प), मुंबई - ४०० ०२८. फोन : +९१-२२६६५८१३००. वेबसाईट : www.arcil.co.in; CIN No.: U65999MH2002PLC134884.

मोरादाबाद मुख्य शाखा

चौमुखापुल, मोरादाबाद

[देखें नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम,

2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन)

नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 03.01.2019 जारी कर ऋणधारक मोह. आरिफ, पुत्र स्व.

श्री रहीस खान तथा गारन्टरों श्री शरताज खान, पुत्र श्री हबीब खान को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि

से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,83,290/53 (रुपये चार लाख तिरासी हजार दो सौ

नब्बे एवं पैसे तिरेपन मात्र) के साथ 4.1.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा सम्पूर्ण भुगतान

ऋणधारक तथा गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक मो.

आरिफ, पुत्र स्व. श्री रहीम खान तथा गारन्टरों श्री सरताज खान पुत्र श्री हबीब खान तथा आम जनता

को सचित किया जाता है कि आज, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित

प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर

विशेष रूप से ऋणधारकों, गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां

नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु.

4,83,290/53 (रुपये चार लाख तिरासी हजार दो सौ नब्बे एवं पैसे तिरेपन मात्र) के साथ 4.1.2019

से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज [सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2)

के अंतर्गत सूचना जारी करने के बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाक] के लिये बैंक ऑफ इंडिया के

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण

मोह. आरिफ, पुत्र श्री रहीस खान के नाम में मकान सं. 1-बी मोहल्ला नवाबपुरा बगिया अहमद हसन

की कोठी, निकट राम लाल फ्लोर मिल मोरादाबाद, क्षेत्रफल माप 53.47 एसक्यूएम में स्थित सम्पत्ति

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

दक्षिण : प्लॉट नं. 16, श्रीमती कैसर सुल्ताना, पत्नी श्री हबीब खान का मकान

शाखा पत्ता : दसरी मंजिल, सेटी चैम्बर्स, प्लाट नं.२, डीडीए शॉपिंग काम्प्लेक्स, एम्ओआर लैंड, नया राजिंदर

फोन नं.: 0591-2316063, 2316062

ईमेलः moradabad.ghaziabad@bankofindia.co.in

सुचना की दिनांक

10.88.720/-

3805/38/3

टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पूछताछ सं.

कार्य का विवरण

2 Year RC for ITC of 33kV & 66kV Bay

निविदा पूछताछ सं.

कार्य का विवरण

TPDDL/ENGG/ENQ/200001126/19-20

Acting Single Phase Smart Reclosers

TPDDL/ENGG/ENQ/200001129/19-20

Rate Contract for Supply of GI Pipes

100mm, 50mm, 40mm for 2 Years

SHLHAGRA0000

जाता है कि वे उपलब्ध समय में प्रतिभत संपत्ति विमक्त करें।

नगर, नई दिल्ली -११००६०

तक अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उत्तर : प्लॉट नं. 1-श्री शराफत अली का एक मकान

पश्चिम: प्लॉट नं. 2 श्री कमर का मकान

ॲसेट रिकन्स्टक्शन कंपनी (इंडिया) लि.

दिनांक :२३/०७/२०१९

Bank of India 🏋

चार्ज के अधीन होगा।

का इक्विटैबल मार्टगैज

तिथि: 17.7.2019

स्थानः मोरादाबाद

चौहद्दी:

RC for Supply of 11kV Pole Mounted Fast

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है

तिथि तक प्रासंगिक व्यय, मूल्य, प्रभार आदि के साथ करने के हेत निर्देश देनेवाली मांग जारी की गई थी

श्रीमती उषा देवी / श्री प्रताप सिंह

अ. ऋण खाता सं. ऋणी/ सह - ऋणी/ जमानतदार का नाम कुल बकावा राशि रु में मांग

६०.२० वर्ग मीटर नाय, सीमा : पूर्व - हरफूल का प्लाट, पश्चिम : १८फीट सड़क , उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण - अन्य संपत्ति

Extension works in Tata Power-DDL

TPDDL/ENGG/ENQ/200001140/19-20

RFx No. 5000001447

08.08.2019 को 15:30 बजे

23.07.2019 को 15:00 बजे से 06.08.2019 को (16:00 बजे तक

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम

फोन : 66112222, फॅक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com

CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइंट : www.tatapower-ddl.com

दस्तावेज

की बिकी

24.07.2019

रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन् लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली–1100

सिर्फ www.tenderwizard.com/CCIL पर 31.07.2019 को या उसके उपरा

च. 62.32,092/- प्रति वर्ष

रेजसाइड पर कंटेनरों की लोडिंग एवं जनलोडिंग के समय वैगनों की लॉकिंग एवं जनलॉकिंग तथा डबल डेकर लॉक्स हेतु इनवेन्टरी मेनेजमेंट

अनलॉकिंग तथा डबल डेकर लॉक्स हेतु इनवेन्टरी मेनेजमेंट'' हेतु सिर्फ ईन्टेन्डर माध्यम से एक पैकेंट (टेक्नो-कॉमर्शियल) रणाली के आधार पर ऑनलाइन खुली ई-निविदा जामंत्रित की जाती है। वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL)

Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

10 जनसत्ता, 23 जुलाई, 2019

Company at www.spicemobility.in.

पर "प्रोक्योरमेंट न्यूज" पर विजिट करें.

Date: 22nd July, 2019

Place: New Delhi

स्थान: नवी मुंबई

gil-epily CONCOR

नेविदा संख्या

सनुबंध की अवधि

रोहर जना राशि

र्व बोली समा

तावेज की लागत

बिक्री की तिथि (ऑनलाइन

शक्षिपत्र, अगर कोई हो तं

दिनांक: 23/07/2019

Spice Mobility Limited Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt. Centre, New Delhi -110025; Tel.: 011- 41251965; Email: complianceofficer@smobility.in

By Order of the Board

& Company Secretary

M R Bothra

प्रमुख (E & TA)

बोली जमा कराने की

ओतिम तारीख और समय/

निविदा खोलने

की तारीख और समय

14.08.2019; 1600 Hrs/

14.08.2019; 1630 Hrs

संशोधित निविदा तिथि/बोली

जमा कराने की तिथि/बोली

खोलने की तिथि

30.07.2019 at 1600 Hrs/

30.07.2019 at 1630 Hrs

24.07.2019 at 1600 Hrs/

24.07.2019 at 1700 Hrs

Contracts - 011-66112222

कब्जे की

दिनांक व प्रकार

१७ - जुलाई -२०१९

सांकेतिक

प्राधिकृत अधिकारी

ॲसेट रिकन्द्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि

बैंक ऑफ इंडिया के लिये

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

For Spice Mobility Limited

Vice President - Corporate Affairs

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय,

पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष

एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-402, गणिनाथ निकुज, प्लॉट नं0.—1, सेक्टर—5, द्वारका, नई दिल्ली—110075 में

फॉर्म सं. आईएनसी-25ए

आम जनता को एतदद्वारा सचित किया जाता है। कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परितर्वन वं लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेत् कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 एवं नियमों के अंतगर केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है जिसके संदर्भ में 20 जुलाई, 2019 को अयोजि अतिविशिष्ट सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारि यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के प्रस्तावि

परिवर्तन / स्थिति से प्रभावित होने की संभावना तो वह शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चोदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए: एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर कंसल्टेंटस लिमिटेड

ए-402, गणिनाथ निक्ंज, प्लॉट नं0.-1, सेक्टर-द्वारका, नई दिल्ली— 110075 कृते और आवेदक की ओर से

मुकुल कुमार सिन्हा तिथिः 20.07.2019 DIN: 00943005

उ.प्र. पावर ट्रांसिमशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा आमंत्रण

सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं/ फर्मों से विद्युत 400

के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, जौली रोड मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत

निम्न कार्यों/ आपूर्ति हेत् ई-निविदायें ई-पींटल

etender.up.nic.in पर दो भागों में निविदा खोलने की

दिनांक को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निर्धारित

निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि आर.टी.जी.एस./

एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि

पृथक-पृथक हस्तांतरित की जानी है) UPPCL

Executive Engineer, UPPCL 400 KV,

Muzaffarnagar के पक्ष में सेन्ट्रल बैंक ऑफ

इण्डिया, नई मंडी, मुजफ्फरनगर शाखा में संचालित चालू

बैंक खाता संख्या 1870219615 (IFSC Code

CBIN0280264) में जमा करायी जायेगी। निविदा के

प्रथम भाग में आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. द्वारा जमा किये

गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथायोज्य यू.टी.आर.

संख्या की प्रति, खाते का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा

हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप

की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. संख्या, इन्कम

टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव

इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियाँ (PDF Format) तथा

ई-निविदा के द्वितीय भाग में दरे एवं वाणिज्यक नियम व शर्ते

ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क, धरोहर

ाशि एवं अन्य व्यावसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा

व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त किये

जायेंगे। ई-निविदा को उसी दिन निर्धारित समय पर

सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा। निविदा के प्रथम भाग में

सम्बन्धित प्रपत्रों का अपलोड ना किये जाने की स्थिति में

निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नहीं खोला जायेगा।ई-

निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-

निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई-निविदाओं को

बिना कोई कारण बताये अस्वीकार/विभाजित करने का

अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया

विस्तृत जानकारी, डाउनलोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा

प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में

कृपया etender.up.nic.in पर लॉग आन करें। विवरण

निम्न प्रकार है-ई-निविदा संख्या, कार्य/सामग्री का विवरण,

खलने की दिनांक. आमंत्रित एवं खोलने का समय धरोहर

राशि एवं निविदा का मुल्य के क्रम में पढ़ा जाये। 1. निविदा

संख्या टी-01/ 2019-20- 400 के.वी. उपकेन्द्र

मजफ्फरनगर पर 400 के.वी. के स्वीचयार्ड में आइसोलेटर्स

के एम.ओ.एम. बॉक्स की मरम्मत एवं पेन्टिंग का कार्य

खोलने का दिनांक 26.08.2019, धरोहर राशि- रु. 2000.00

टेण्डर शुल्क- रु. 590/- (कर सहित) 12:00 बजे

(आमंत्रित), 14:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने

हेत्) 2. निविदा संख्या टी-02/2019-20:- 400 के.वी.

उपकेन्द्र, मुजफ्फनगर पर स्वीचयार्ड में स्थापित विभिन्न

उपकरणों की पेन्टिंग का कार्य। खोलने का दिनांक

26.08.2019, धरोहर राशि- रु. 2000.00 टेण्डर शुल्क- रु.

590/- (कर सहित) 12:00 बजे (आमंत्रित), 14:15 बजे

(तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) 3. निविदा संख्या टी-

03/2019-20:- 400 के.वी. उपकेन्द्र, मुजफ्फरनगर पर

स्थापित 315 एम.वी.ए. परिवर्तक-द्वितीय के चीलिंग टैंक एवं

केबिल ट्रन्च की सफाई तथा केबिल स्पोर्ट रैक ही पंन्टिंग का

कार्य। खोलने का दिनांक 26.08.2019, धरोहर राशि- रु.

2000.00 टेण्डर शुल्क-रु. 590/- (कर सहित) 12:00 बजे

(आमंत्रित), 14:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने

हेतु) हस्ता./- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के.वी.

उपकेन्द्र खण्ड, जौली रोड, मुजफ्फरनगर। ''राष्ट्रहित में

ऊर्जा बचायं'' पत्रांक 962 दिनांक 22.07.2019

शेयर सूचकांक 306 अंक लुढ़क कर दों महीने के निम्न स्तर पर

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

व्यापार

शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला तीसरे दिन भी बना रहा और बीएसई सूचकांक 306 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दो प्रमुख घरेलु वित्तीय कंपनियों एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के शेयरों में भारी बिकवाली से साथ प्रमुख सूचकांक नीचे आ गए।

शेयर बाजारों में कुल मिलाकर 18 जुलाई से | 3.05 फीसद यानी 1,184.15 अंक की गिरावट आ चुकी है। तीस नामी शेयरों वाला बीएसई सूचकांक | 305.88 अंक यानी 0.80 फीसद की गिरावट के साथ | 38,031.13 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक का यह स्तर 17 मई के बाद न्यूनतम है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82.10 अंक यानी 0.72 फीसद ट्रट कर 11,337.15 पर बंद हुआ। पिछले बृहस्पतिवर से 50 शेयरों वाला सूचकांक 3.03 फीसद यानी 350 अंक नीचे आया है। कारोबारियों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से पंजी निकासी और रुपए की विनिमय दर में गिरावट

से भी बाजार के प्रति धारणा प्रभावित हुई। सूचकांक के शेयरों में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को सर्वाधिक नुकसान हुआ तथा दोनों के शेयर क्रम से

5.09 फीसद और 3.32 फीसद नीचे आए। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बढ़ने की रपट से शेयरों को नुकसान हुआ। एचडीएफसी बैंक का सकल एनपीए बढ़कर 11,768.95 करोड़ रुपए पर पहुंच गया यह उसके कुल बकाया कर्जों के 1.50 फीसद के बराबर है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में बैंक का एनपीए 9,538.62 करोड़ रुपए था जो कुल कज का 1.33 फीसद था। बैंक ने एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र के लिये भी प्रावधान बढ़ाया है।

नुकसान में रहने वाले अन्य प्रमुख शेयरों में कोटक बैंक, एचयुएल, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एसबीआई, महिद्रा एंड महिद्रा और पावरग्रिड में 3.08 फीसद तक की गिरावट आई। मानसनी बारिश औसत से कम होने के कारण कमजोर धारणा से तेल. साबन जैसे दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों में आईटीसी और एचयुएल में क्रमशः 1.47 फीसद और 2.67 फीसद की गिरावट आयी। वहीं लाभ में रहने वालों में येस बैंक शीर्ष पर

रहा। इसमें 9.49 फीसद की तेजी आयी। उसके बाद क्रमशः वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, मारुति और सन फार्मा का स्थान रहा। इनमें 3.85 फीसद तक की तेजी आई।

एस्सार दिवाला मामले में अदालत का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार दिवाला प्रकरण में सोमवार की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति रोहिंग्टन नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निगरानी समिति सात अगस्त को मामले की सुनवाई होने तक अपना काम करती रहेगी। पीठ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के चार जलाई के आदेश के खिलाफ कर्जदाताओं की समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए (ऋगदाताओं) को उनके 49,473 करोड़ रुपए के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के नेतृत्व वाली दावे का 60.7 फीसदी धन मिलेगा जबकि शेष

बोली को मंजूरी दे दी है। अपीली न्यायाधिकरण कर्ज में डूबी इस कंपनी के एक प्रमुख शेयरधारक द्वारा आर्सेलरमित्तल की बोली लगाने वाले की आईता को चुनौती देने वाली अर्जी नामंजूर कर दी है।

कर्ज में डुबी एस्सार स्टील पर वित्तीय लेनदारों और दैनिक परिचालन के लिए माल और सेवाएं उधार देने वालों के कुल 54,547 करोड़ रुपए की बकाया राशि के समाधान के लिए दिवाला और ऋग शोधन अक्षमता संहिता के तहत इस कंपनी की नीलामी की गयी थी। अपीली अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने इस न्यायाधिकरण ने कहा था कि वित्तीय लेनदारों अर्सलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपए की राशि उधार आपूर्ति करने वालों को जाएगी।

Notice Inviting Tender

on the prescribed format duly affixed with Revenue Stamps worth Rupees Six only and accompanied with following Earnest Money in the form of Demand Draft of any Scheduled/Nationalized/Commercial Bank oledged to the Chief Accounts Officer, SMVDSB are invited from the Original Manufacturers/ Authorized Dealers for the Design Supply, Installation, Testing and Commissioning of following Passenger Elevators of Shri Mata Vaishno Devi Institute of Medical Excellence & SMVDCoN, Kakryal, Tehsil-Katra, Distt: Reasi-J&K as per details given below:

Sr. No.	Name of the Work	Class of Contractor	Qty.	Completion Time	DD Amount (In Rs.)
1.		\$ X		1	
(a)	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 8 Passenger Capacity Elevators at Sushrata-II, at SMVDIME Kakryal, as per specification at APPENDIX-8 (i) & 9.	Manufacturers of a) Otis b) Kone	02 Nos.	180 Days	1.50 Lakh
(b)	Design, Supply, Installation, d) John Testing & commissioning of 8 e) The	d) Johnson	04 Nos.		
		Total	06 Nos.		Rs.1.50 Lakh

Engineer, SMVDIME Kakryal, Katra against Demand Draft of Rs. 1000/- (Non-transferable & Non-refundable) on any working day from 10.00 A.M. to 05.00 P.M. and the same can also be downloaded from our website "www.maavaishnodevi.org". Cost of Tender Documents in the shape of Demand Draft drawn at Katra in favour of Chief Accounts Officer, SMVDSB must accompany the downloaded Tender Form. Incomplete Tenders or Tenders without Demand Draft, without Tender Cost and not received within the stipulated Date and Time shall be out rightly rejected. The Tenders complete in all respects must reach the Office of the Chief Engineer, SMVDSB Kalika Dham,

Jammu through Speed Post / Registered A.D / Reputed Courier Service only by or before 23.08.2019 upto 02:00 P.M. IST. The Tender(s) will be Opened on the same day or any other subsequent day convenient to the Shrine Board in presence of such Tenderers who may like to be present on spot. The Chief Engineer reserves the right to accept or reject any Tender/Tenders without assigning any reason thereof NIT No: SMVDIME/EE/T/ 12 Sd/- Executive Engineer Dated: 22/07/2019 SMVDIME, Kakryal

अंचल कार्यालय-दिल्ली उत्तर, दसग तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं, 011-28754615, 28754642, ईमेल आईडी: DLIREC@CORPBANK.CO.IN वेबसाईट: WWW.CORPBANK.CO.IN

ईएमडी तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 7.8.2017 के 5.00 बजे अप. तक

ई-नीलामी की तिथि-8.8.2019 के 11.45 पूर्व. से 1.15 अप. तक

बकाया राशिः रु.

ब्याज एवं अन्य चार्जेज

1,45,36,972.78/- तथा उस पर

उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज।

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सुचना एतदुद्वारा सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सुचित किया जाता है कि प्रतिभृति क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) से कॉर्पोरेशन बैंक के यहाँ नीचे वर्णित बकाये की वसली के लिये नीचे वर्णित तिथि को ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

पश्चिम विहार शाखा, फोन नं. 011-25258519, 25287721, सम्पत्ति संबंधित किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: श्री चंडी कुमार, मोबाईल नं. 8076933102 ऋणधारकों एवं गारन्टरों का ऋणधारकः तिरुपति ट्रान्सलॉजिस्टिक्स प्रा. लि. (ऋणधारक) प्लॉट 1, ब्लॉक ए 3, दुसरा तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली गारन्टर 1. कमल किशोर गोयल. 2. अनीता गोयल तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज प्तम्पत्ति सं. 01 प्लॉट नं. 1, ब्लॉक ए 3, पश्चिम विहार, दिल्ली–2रा तल (पूर्वी भाग) बिना छत के अधिकार के– सुपर बिल्ट अप एरिया 1250 वर्ग फीट) में सम्पत्ति (भौतिक कब्जा)

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,17,00,000/-जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 11,70,000/-, बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/ tender/tirupati translogistics pvt ltd.pdf में दी गई लिंक देखें।

कौर, गारन्टर: 1. गरदीप. 2. कमलजीत कौर. 3. जसविन्दर सिंह, 4. जसवीर कौर

श्रीमती गुरविन्दर कौर, 33/141, मुखर्जी पार्क एक्स्टें., तिलक नगर, नई दिल्ली

तिलक नगर शाखा, फोन नं. 011–25996927, 25990655, 25990736. सम्पत्ति-संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: श्री द्वारिका प्रसाद, मोबाईल नं. शाखा का नाम एवं पता

सम्पत्ति सं. 02. श्रीमती गुरविन्दर कौर के नाम में आवासीय सम्पत्ति नं. 22/1ए, 2रा तल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 का सभी भाग तथा हिस्सा (**भौतिक कब्जा**) **ई-नीलामी की तिथिएवं समय:** 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ। **आरक्षित मूल्य**: रु. 45,90,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,59,000/ बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/tender/move_and_talk_delhi__1.pdf में दी गई लिंक देखें। ऋणधारकः रितृष शर्मा 80, साकेत, मेरठ-सह-देनदारः 1. श्रीमती रीना शर्मा **बकाया राशि:** रु. 1056151/- तथा

ऋणधारकः मूव एंड टॉक दिल्ली, डी-114, जेल रोड, फतेह नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः कमलजीत

गारन्टर का नाम सम्पत्ति सं. 03. फ्लैट नं. 504, 4था तल, रॉयल ब्लैक, सुपरटेक ईस्टेट जो ग्राम-प्रह्लाद गढ़ी, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित है, का ईएमजी (सांकेतिक कब्जा)

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 45,05,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,50,000/–, बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ritush_sharma_2.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं

गारन्टरों का नाम

शालीमार बाग शाखा, फोन नं. 011-27470276, 27483072, 27483073, मो. 7042694935 ऋणधारकः बाबा एप्लिएंसेस प्रा. लि., ए-16, गली नं. 17, लिबासपुर, दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः श्री संजीव कपुर, श्रीमती गीता बकाया राशिः रु. 12,08,30,518/-

कपूर, गारन्टरों का नामः 1 संजीव कपूर, ए−16, गली नं.17, लिबासपुर, दिल्ली−2, गीता कपूर, एच. नं. 1385, किशनपुर,|तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज संपत्ति सं. 04. खसरा नं. 396/1 मिन, ग्राम गोपालपुरा, माजरा दारा कोट्टला बैरुन, बेस्ट रोड, सहारणपुर, पिन-247001, उत्तर में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन (सांकेतिक कब्जा)

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मुल्यः रु. 1,20,15,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 12,01,500/-, बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/ tender/bawa_appliances_pvt_ltd_0.pdf में दी गई लिंक देखें। सम्पत्ति सं. 5: कम्पनी गार्डन, एम.एस. डिग्री कॉलेज, एसडी बॉयम इन्टर कॉलेज, नायमैश कैम्प, सहारनपर, उत्तर प्रदेश के निकट परिक्षेत्र में वाके दारा मिल्कान बैरुन मोहित विहार कॉलोनी, निकट माधो

नगर तथा न्यू माधो नगर में स्थित प्लॉट नं.-11 तथा खसरा नं.-608/2 (एम) के पूर्वी भाग का एक मंजिला आवासीय बिल्डिंग। (सांकेतिक कब्जा) **ई-नीलामी की तिथि एवं समय**: 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। **आरक्षित मूल्यः** रु. 22,05,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,20,500/- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/tender/bawa appliances pvt 1td2 0.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 6: आवासीय फ्लैट नं. बी 3/804, 8वाँ तल, तुलिप ग्रैण्ड, अकबरपुर बरोटा, सेक्टर-35, सोनीपत, हरियाणा (एरिया-1679 वर्ग फीट) (सांकेतिक कब्जा) **ई-नीलामी की तिथि एवं समय**: 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। **आरक्षित मृल्य**: रु. 32,40,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 3,24,000/- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/tender/bawa appliances pvt ltd3 0.pdf में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 22.7.2019, स्थान: दिल्ली

सम्पत्ति सं. 7: शॉप नं. 20, नगर पालिका नं. 2बी/112, वाके पाठानपुरा, डार आबादी, मिशन कम्पाउण्ड, मिशन मार्केट, कोर्ट रोड. सहारनपर **ई-नीलामी की तिथि एवं समय**: 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। **आरक्षित मूल्यः** रु. 1,34,50,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 13,45,000/- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd4_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

प्राधिकृत अधिकारी, कॉर्पोरेशन बैंक